


KEVA

# कीवा ओमेगा 3 ड्रॉप्स



# स्वास्थ्य समस्याएं

- हृदय की समस्या
- कैंसर
- तनाव
- रक्तचाप
- मधुमेह



हम सभी बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं



इसका मुख्य कारण यह है कि हमें अपने आहार में सही पोषण नहीं मिल रहा है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है

ओमेगा 3 हमारे दैनिक आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है।

लेकिन यह हमारे शरीर द्वारा निर्मित नहीं है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यह कुछ पुरक आहार के माध्यम से हमारे आहार में शामिल हो

3

OMEGA 3

ईपीए और डीएचए  
का महत्वपूर्ण स्रोत

अच्छे स्वास्थ्य के रखरखाव के  
लिए जो हृदय स्वास्थ्य को बनाए  
रखने में मदद कर सकता है



## डीएचए (डोकोसाहेक्सैनोइक एसिड)

- डोकोसाहेक्सैनोइक एसिड या DHA ओमेगा -3 फैट का एक प्रकार है
- ✓ हृदय रोग के खतरे को कम करता है
  - ✓ प्रारंभिक प्रीटर्म बर्थ के खतरे को कम करता है
  - ✓ सूजन कम करता है
  - ✓ व्यायाम के बाद मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है
  - ✓ कुछ नेत्र स्थितियों में मदद करता है
  - ✓ कुछ कैंसर के खतरे को कम कर सकता है
  - ✓ अल्जाइमर रोग को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकता है
  - ✓ ब्लड प्रेशर कम करता है
  - ✓ शिशुओं में सामान्य मस्तिष्क और नेत्र विकास के लिए सहायक है
  - ✓ पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य में सहायक है
  - ✓ मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा में मदद मिल सकती है



## ईपीए (एक्सपेंटाइनोस एसिड)

Eicosapentaenoic Acid, या EPA ओमेगा -3 फैट का एक प्रकार है।

- ✓ ईपीए रक्त जमने से आसानी से रोक सकता है। ये फैटी एसिड दर्द और सूजन को भी कम करते हैं
- ✓ ज्यादा खतरे वाले गर्भधारण (एकलम्पसिया), हृदय रोग, सिज़ोफ्रेनिया, व्यक्तित्व विकार, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर रोग, अवसाद, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के लिए ईपीए का उपयोग किया जाता है



**इसमें मौजूद हैं**

अलसी का अर्क, हेम्प बीज, सूरजमुखी,  
सफ़फ़लौर, जीनस ज़ज़ानिया का अर्क,  
लीसियम फल और अकाई फल का अर्क



**KEVA**



# सामग्री के स्वास्थ्य की दर

हेम्प बीज, सूरजमुखी, सफ़फ़लौर और जीनस  
ज़िज़ानिया EPA (Eicosapentaenoic  
एसिड), DHA (Docosahexaenoic एसिड)  
के इस मिश्रण में **कई स्वास्थ्य लाभ हैं** जैसे



दिल

सिस्टिक फाइब्रोसिस

दमा

मधुमेह

गुर्दे की बीमारी

ऑस्टियोपोरोसिस

एलर्जी

अल्सरेटिव कोलाइटिस

ल्यूपस




KEVA



स्वास्थ्य लाभ

# KEVA



- ✓ यह अच्छे स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए ईपीए और डीएचए का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है
- ✓ यह रक्तचाप को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, हृदय की असामान्य धड़कन की संभावना को कम करता है और दिल के दौरों और स्ट्रोक की संभावना को कम करता है
- ✓ यह टाइप 2 मधुमेह का इलाज करता है
- ✓ यह उम्र से संबंधित मैकुलर डिजनरेशन नामक एक नेत्र रोग को रोकने के लिए दृष्टि में सुधार करता है
- ✓ यह डिप्रेशन को रोकता है और उपचार करता है और तनाव को कम करता है
- ✓ यह फेफड़ों के रोगों और गुर्दे की बीमारी से बचाता है





- ✓ माइग्रेन सिरदर्द और त्वचा संक्रमण में इसका उपयोग किया जा सकता है
- ✓ यह गठिया, क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज करता है
- ✓ यह रक्त परिसंचरण में सुधार करता है
- ✓ यह मस्तिष्क के कामकाज में सुधार करता है
- ✓ यह उम्र बढ़ने के सामान्य संकेतों से बचाव करता है
- ✓ यह हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है



**KEVA**



# सेवन का तरीका



सुबह और शाम 10 बूँदें खाली पेट  
या भोजन से आधे घंटे पहले लें

बेहतर परिणाम के लिए नियमित रूप से 6-12  
महीनों के लिए इसे दो बार दैनिक उपयोग करें

संपर्क करें

कीवा इंडस्ट्रीज

वेबसाइट: [www.kevaind.org](http://www.kevaind.org)

KEVA

# धन्यवाद

नोट: यह उत्पाद किसी भी बीमारी का इलाज, रोकथाम या निदान करने के लिए नहीं है। कृपया अपने स्वास्थ्य चिकित्सक से परामर्श करें। उच्च रक्तचाप / हाई बीपी वाले रोगी परहेज़ करें।